



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

### प्रेस नोट

दिनांक:- 01.06.2022

#### दिनांक-01.06.2022 को थाना पुलिस चौक द्वारा एक शातिर चोर पकड़ा गया

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त ज़ोन काशी व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चौक श्री शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा दिनांक 01/06/2022 को समय लगभग 11:15 बजे प्रभारी चौकी केवीएम उप निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव मय हमराह अवनीश यादव , फैटम 15 कर्मचारीगण मुख्य आरक्षी श्रीप्रकाश यादव , आरक्षी मनोज कुमार सिंह द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चोरी करके भागने वाले 1 एक नफर चोर को मय एक अदद चैन पीली धातु गिरफ्तार किया गया ।

#### अभियुक्त का विवरण

1. राजेश कुमार पुत्र नरेश राय निवासी पोखरिया मठिया कठिया थाना कंगाली जिला पश्चिम चंपारण बेतिया बिहार

#### बरामदगी का विवरण

1. एक अदद चैन का टुकड़ा पीली धातु 06 ग्राम

#### आपराधिक इतिहास

अपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है

#### घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 29/05/2022 को श्री जेठमल केला पुत्र अज्ञात निवासी सूरज बैरा , सूरसगर जोधपुर सिटी पश्चिम राजस्थान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे दर्शन करते समय भीड़-भाड़ में धक्का-मुक्की करते समय एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जब वह नंदी के पास दर्शन के लिए खड़े थे तब गले से चैन तोड़ कर भाग गया था , आज दिनांक 01/06/2022 को उप निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव मय हमराह फैटम 15 कर्मचारीगण मुख्य आरक्षी श्रीप्रकाश यादव , आरक्षी मनोज कुमार सिंह थाना क्षेत्र में गश्त हेतु निकले थे तभी एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की मंदिर परिसर से चैन छीन कर भागने वाला व्यक्ति फूल मंडी के पास घूम रहा है जिसे चौक पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ।

## गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उप निरीक्षक राजेश कुमार यादव प्रभारी चौकी केवीएम थाना चौक
2. मुख्य आरक्षी श्रीप्रकाश यादव थाना चौक
3. आरक्षी मनोज कुमार सिंह थाना चौक
4. आरक्षी अक्कीश यादव थाना चौक

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त,  
जोन काशी कमिश्नरेट  
वाराणसी।